

## संगरिया में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी बारदाना, स्पिरिट के ड्रम व हजारों पव्वे मिले

Hanumangarh News - संगरिया| आबकारी विभाग की ओर से मंगलवार देर रात को हनुमानगढ़ रोड पर एक गोदाम में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री का...

Feb 19, 2020, 11:55 AM IST



संगरिया| आबकारी विभाग की ओर से मंगलवार देर रात को हनुमानगढ़ रोड पर एक गोदाम में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। मौके पर भारी मात्रा में शराब निर्माण में काम आने वाला बारदाना, स्पिरिट के ड्रम और बगैर इस्तेमाल किए गए पव्वे मिले हैं। वहीं एक जने को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीईओ संजीव पटावरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि संगरिया में वार्ड 19 में बांठिया मिल्स में बने गोदाम में शराब की अवैध फैक्ट्री चल रही है। सूचना के आधार पर ठिकाने पर दबिश दी, तो मौके पर मनीष पुत्र गोवर्धन दास सिंधी निवासी वार्ड 23 संगरिया मिला। तलाशी के दौरान यहां से करीब 20 ड्रम, कीप, पाइप, हजारों की संख्या में अनुपयुक्त खाली पव्वे भारी मात्रा में मिले, जिनकी गिनती की जा रही है। उन्होंने बताया कि बरामद सामान करीब दो ट्रकों में आ सकता है, इतनी मात्रा में है। कार्रवाई करने वाली टीम में आबकारी निरीक्षक मधु उज्ज्वल, आशीष व्यास, प्रहराधिकारी कैलाश स्वामी आदि शामिल रहे। डीईओ ने बताया कि गोदाम संचालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। मौके पर मिले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले गत माह संगरिया में ही वेदप्रकाश उर्फ हैप्पी मरेजा के मकान में अवैध शराब की फैक्ट्री पुलिस की ओर से पकड़ी गई थी।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/hanumangarh/news/rajasthan-news-fake-liquor-factory-caught-gunny-spirit-drums-and-thousands-of-powers-found-in-sangria-115556-6660022.html>